



[हंदी साहतियः पेन ड्राइव कोरस](#)

ध्यान देंः

[सविलि सेवा दविस ऑफर | यहाँ क्लकि करें!PT SPRINT - 2022परीक्षा वजिअपत्त 2022 \(सविलि सेवा परीक्षा\)यूपीएससी \(मुख्य\) परीक्षा 2021 प्रश्नपत्र : नबिंध](#)

close

-

//

- [होम](#)
- [बलॉग](#)
- [पुसतके](#)
- [ऑनलाइन कोरस](#)
- [ककथा करयकरस](#)
- [दृषटि वेब स्टोर](#)
- [DLP](#)
- [नोटस बनाएँ](#)

- [लॉग इन](#)
- [रजिस्ट्र](#)

भाषा: [ENहिंदी](#)

[खोजें](#)

[आरएसएस फीड](#)

[Cart](#)

[Classroom](#)

मेनू

- [हमारे बारे में](#)
 - [सामान्य परिचय](#)
 - ['दृष्टि द वजिन' संस्थान](#)
 - [दृष्टि पब्लिकेशन](#)
 - [दृष्टि मीडिया](#)
 - [प्रबंध नदिशक](#)
 - [इंफ्रास्ट्रक्चर](#)
- [सविलि सेवा परीक्षा](#)
 - [परिचय](#)
 - [परीक्षा का प्रारूप](#)
 - [सविलि सेवा ही क्यों?](#)
 - [सविलि सेवा परीक्षा के विषय में अधिक](#)
 - [प्रमुख सविलि सेवाओं का परिचय](#)
 - [आई.ए.एस.](#)
 - [आई.पी.एस.](#)
 - [आई.एफ.एस.](#)
 - [तैयारी की रणनीति](#)
 - [प्रारंभिक परीक्षा](#)
 - [मुख्य परीक्षा](#)
 - [इंटरव्यू](#)
 - [उपयोगी पुस्तकें](#)
 - [सामान्य अध्ययन](#)
 - [वैकल्पिक विषय](#)
 - [FAQs](#)
 - [परीक्षा विज्ञप्ति](#)
- [प्रारंभिक परीक्षा](#)
 - [पाठ्यक्रम & रणनीति](#)
 - [पाठ्यक्रम](#)
 - [रणनीति](#)
 - [प्रलिमिस विश्लेषण](#)
 - [मॉडल पेपर](#)
 - [प्रेक्टिस टेस्ट](#)
 - [60 Steps To Prelims](#)
 - [डेली करंट टेस्ट](#)
 - [एन. सी. ई. आर. टी. टेस्ट](#)
 - [आर्थिक सर्वेक्षण टेस्ट](#)
 - [PRS & PIB](#)
 - [सीसैट टेस्ट](#)
 - [सामान्य अध्ययन टेस्ट](#)
 - [योजना एवं कुरुक्षेत्र टेस्ट](#)

- डाउन टू अर्थ टेस्ट
 - वजिज्ञान एवं परौद्योगिकी टेस्ट
 - Prelims Special
 - Path To Prelims
 - 60 Steps To Prelims
 - प्रलिमिंस रफिरेशर प्रोग्राम 2020
 - PT Sprint 2022
 - वर्गित वर्षों के प्रश्नपत्र
 - सामान्य अध्ययन
 - सीसैट
 - ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज
 - टेस्ट सीरीज के लिये नामांकन
 - फ्री मॉक टेस्ट
- मुख्य परीक्षा
 - पाठ्यक्रम & रणनीति
 - पाठ्यक्रम
 - रणनीति
 - मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न
 - एन. सी. ई. आर. टी.
 - इतिहास
 - नबिंध
 - नबिंध उपयोगी उद्धरण
 - टॉपर्स के नबिंध
 - मॉडल नबिंध
 - वर्गित वर्षों के प्रश्नपत्र
 - वर्षवार
 - विषयानुसार
 - टॉपर्स कॉपी
 - सामान्य अध्ययन
 - हृदि साहित्य
 - इतिहास
 - भूगोल
 - दर्शनशास्त्र
 - नबिंध
 - हृदि अनविार्य
 - Be Mains Ready
 - 2021
 - 2020
 - 2019
 - मॉडल पेपर
 - ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज
 - ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (यू.पी.एस.सी.)
- प्रैक्टिस टेस्ट
 - Path to prelims
 - मासिक करेंट अफेयर्स संग्रह
 - 60 Steps To Prelims
 - डेली करेंट टेस्ट
 - साप्ताहिक रविज्ञान
 - एन. सी. ई. आर. टी. टेस्ट
 - आर्थिक सर्वेक्षण टेस्ट
 - PRS & PIB
 - सीसैट टेस्ट
 - सामान्य अध्ययन टेस्ट
 - योजना एवं कृषकषेत्तर टेस्ट
 - डाउन टू अर्थ टेस्ट
 - वजिज्ञान एवं परौद्योगिकी टेस्ट
 - PCS Quiz
- पी.सी.एस.
 - बिहार

- छत्तीसगढ़
- राजस्थान
- उत्तर प्रदेश
- हरियाणा
- झारखंड
- उत्तराखंड
- मध्य प्रदेश
- टेस्ट सीरीज
 - UPSC
 - प्रलमिस टेस्ट सीरीज
 - मेन्स टेस्ट सीरीज
 - BPSC
 - प्रलमिस टेस्ट सीरीज
 - मेन्स टेस्ट सीरीज -
 - सामान्य अध्ययन
 - हदी साहित्य
 - UPPCS
 - प्रलमिस टेस्ट सीरीज
 - मेन्स टेस्ट सीरीज
 - RAS/RTS
 - मेन्स टेस्ट सीरीज
 - MPPSC
 - प्रलमिस टेस्ट सीरीज
 - मेन्स टेस्ट सीरीज
- करेंट अफेयर्स
 - डेली न्यूज़, एडिटोरियल और प्रलमिस फ़ैक्ट
 - डेली करेंट टेस्ट
 - संसद टीवी संवाद
 - आर्थिक सर्वेक्षण
 - मासिक करेंट अपडेट्स संग्रह
 - मासिक एडिटोरियल संग्रह
 - मासिक डेली क्विज संग्रह
- ट्रिब्यूनल
 - चर्चा मुद्दे
 - माइंड मैप
 - पेपर 1
 - पेपर 2
 - पेपर 3
 - पेपर 4
 - टू द पॉइंट
 - पेपर 1
 - पेपर 2
 - पेपर 3
 - पेपर 4
 - महत्त्वपूर्ण संस्थान/संगठन
 - मैप के माध्यम से अध्ययन
 - महत्त्वपूर्ण रपिर्ट्स की जस्टि
 - पीआरएस कैंपसूलस
 - डसिटेस लर्निंग प्रोग्राम
- डाउनलोड्स
 - टॉपरस कॉपी
 - सामान्य अध्ययन
 - हदी साहित्य
 - इतिहास
 - भूगोल
 - दर्शनशास्त्र
 - नबिंध
 - हदी अनविर्य
 - एनसीईआरटी बुक्स

- [एनआईओएस सटडी मेटरियल](#)
- [इग्नू सटडी मेटरियल](#)
- [योजना और कुरुकषेतर](#)
- [इनफोग्राफिकिस](#)
- [वर्गित वर्षों के परशनपत्र](#)
 - [सामान्य अधययन \(परारंभिक परीक्षा\)](#)
 - [सीसैट \(परारंभिक परीक्षा\)](#)
 - [मुख्य परीक्षा \(वरषवार\)](#)
 - [मुख्य परीक्षा \(वषियानुसार\)](#)
- [वीडियो सेकशन](#)
 - [मेनस \(जी.एस.\) डसिकशन](#)
 - [मेनस \(ओपशनल\) डसिकशन](#)
 - [करेंट नयुज बुलेटनि](#)
 - [मॉक इंटरव्यू](#)
 - [टॉपरस व्यू](#)
 - [टू द पॉइंट](#)
 - [सरकारी योजनाएँ](#)
 - [ऑडियो आर्टिकलस](#)
 - [रणनीति](#)
 - [उत्तर लेखन की रणनीति](#)
 - [कॉन्सेप्ट टॉक : डॉ. वकिस दवियकीरति](#)
- [और देखें](#)
[दृषटिवेब स्टोर](#)

close

- [संपादक की कलम से](#)
- [बलॉग](#)
- [पी.सी.एस.](#)
- [इंटरव्यू](#)
- [डसिटेंस लरनगि प्रोग्राम](#)
- [बगिनरस के लिये सुझाव](#)

एचीवर्स कॉर्नर

- [टॉपरस कॉपी](#)
- [टॉपरस इंटरव्यू](#)

हमारे बारे में

- [सामान्य परचिय](#)
- ['दृषटिद वजिन' संस्थान](#)
- [दृषटिपबलकेशन](#)
- [दृषटिभीडिया](#)

- [प्रबंध नदिशक](#)
- [इंफ्रास्ट्रक्चर](#)

- [कक्षा कार्यक्रम](#)

प्रारंभिक परीक्षा

- [पाठ्यक्रम & रणनीति](#)
 - [पाठ्यक्रम](#)
 - [रणनीति](#)
- [प्रलिमिस विश्लेषण](#)
- [60 Steps To Prelims](#)
- [प्रलिमिस रफ्रेशर प्रोग्राम 2020](#)
- [मॉडल पेपर](#)
- [प्रैक्टिस टेस्ट](#)
 - [60 Steps To Prelims](#)
 - [डेली करेंट टेस्ट](#)
 - [साप्ताहिक रविजन](#)
 - [एन. सी. ई. आर. टी. टेस्ट](#)
 - [आर्थिक सर्वेक्षण टेस्ट](#)
 - [PRS & PIB](#)
 - [सीसेट टेस्ट](#)
 - [सामान्य अध्ययन टेस्ट](#)
 - [योजना एवं कुरुक्षेत्र टेस्ट](#)
 - [डाउन टु अर्थ टेस्ट](#)
 - [वजिज्ञान एवं परौद्योगिकी टेस्ट](#)
- [वर्गित वर्षों के प्रश्नपत्र](#)
 - [सामान्य अध्ययन \(प्रारंभिक परीक्षा\)](#)
 - [सीसेट \(प्रारंभिक परीक्षा\)](#)
 - [मुख्य परीक्षा \(वर्षवार\)](#)
 - [मुख्य परीक्षा \(वषियानुसार\)](#)
- [ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज](#)
 - [टेस्ट सीरीज के लिये नामांकन](#)
 - [फ्री मॉक टेस्ट](#)

मुख्य परीक्षा

- [पाठ्यक्रम & रणनीति](#)
 - [पाठ्यक्रम](#)
 - [रणनीति](#)
- [मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न](#)
- [एन. सी. ई. आर. टी.](#)
 - [इतिहास](#)
- [नबिंध](#)
 - [नबिंध उपयोगी उद्धरण](#)
 - [टॉपर्स के नबिंध](#)
 - [मॉडल नबिंध](#)

- [वर्गित वर्षों के प्रश्नपत्र](#)
 - [वर्षवार](#)
 - [वर्षानुसार](#)
- [टॉपरस कॉपी](#)
 - [सामान्य अध्ययन](#)
 - [हृदी साहित्य](#)
 - [इतहिस](#)
 - [भूगोल](#)
 - [दरशनशास्त्र](#)
 - [नर्बिध](#)
 - [हृदी अनविरय](#)
- [Be Mains Ready](#)
- ['AWAKE' : मुख्य परीकषा-2020](#)
- [मॉडल पेपर](#)
- [ऑल इंडिया टेसट सीरीज](#)
 - [ऑल इंडिया टेसट सीरीज \(यू.पी.एस.सी.\)](#)

पी.सी.एस.

- [बहिर](#)
- [छत्तीसगढ](#)
- [राजस्थान](#)
- [उत्तर प्रदेश](#)
- [हरियाणा](#)
- [झारखंड](#)
- [उत्तराखंड](#)
- [मध्य प्रदेश](#)

टेसट सीरीज

- [UPSC परलिमिस टेसट सीरीज](#)
- [UPSC मेनस टेसट सीरीज](#)
- [UPPCS परलिमिस टेसट सीरीज](#)
- [UPPCS मेनस टेसट सीरीज](#)
- [BPSC मेनस टेसट सीरीज - हृदी साहित्य](#)

करेंट अफेयर्स

- [डेली नयुज, एडिटोरियल और परलिमिस फैक्ट](#)
- [डेली करेंट टेसट](#)
- [मासकि करेंट अपडेटस संग्रह](#)
- [संसद टीवी संवाद](#)
- [आर्थिक सरवेक्षण](#)
- [मासकि करेंट अपडेटस संग्रह](#)
- [मासकि एडिटोरियल संग्रह](#)
- [मासकि डेली कवजि संग्रह](#)

दृष्टि स्पेशल्स

- [चरचति मुद्दे](#)
- [माइंड मैप](#)
 - [पेपर 1](#)
 - [पेपर 2](#)
 - [पेपर 3](#)
 - [पेपर 4](#)
- [टू द पॉइंट](#)
 - [पेपर 1](#)
 - [पेपर 2](#)
 - [पेपर 3](#)
 - [पेपर 4](#)
- [महतत्वपूर्ण संसथान/संगठन](#)
- [मैप के माध्यम से अध्ययन](#)
- [संसद टीवी संवाद](#)
- [महतत्वपूर्ण रपॉर्ट्स की जसिट](#)
- [पीआरएस कैपसूलस](#)
- [डसिटेंस लरनगि प्रोग्राम](#)

डाउनलोड्स

- [टॉपरस कॉपी](#)
 - [सामान्य अध्ययन](#)
 - [हर्दी साहतिय](#)
 - [इतहिस](#)
 - [भूगोल](#)
 - [दरशनशास्त्र](#)
 - [नर्बिध](#)
 - [हर्दी अनविर्य](#)
- [एनसीईआरटी बुकस](#)
- [एनआईओएस स्टडी मैटरियल](#)
- [इग्नू स्टडी मैटरियल](#)
- [योजना और कुरुकषेत्तर](#)
- [इनफोग्राफकिस](#)
- [वर्गत वर्षों के प्रश्नपत्तर](#)
 - [सामान्य अध्ययन \(प्रारंभिक परीक्षा\)](#)
 - [सीसैट \(प्रारंभिक परीक्षा\)](#)
 - [मुख्य परीक्षा \(वर्षवार\)](#)
 - [मुख्य परीक्षा \(वर्षियानुसार\)](#)

वीडियो सेक्शन

- [मेन्स \(जी.एस.\) डसिकशन](#)
- [मेन्स \(ओपशनल\) डसिकशन](#)
- [करेंट न्यूज़ बुलेटनि](#)
- [मॉक इंटरव्यू](#)
- [टॉपरस व्यू](#)

- [टू द पॉइंट](#)
- [सरकारी योजनाएँ](#)
- [ऑडियो आर्टिकलस](#)
- [रणनीति](#)
- [उत्तर लेखन की रणनीति](#)
- [कॉन्सेप्ट टॉक : डॉ. विकास दवियकीरति](#)
- [दृष्टिआईएस के बारे में जानें](#)

सविलि सेवा परीक्षा

- [परचिय](#)
- [परीक्षा का प्रारूप](#)
- [सविलि सेवा ही क्यों?](#)
- [सविलि सेवा परीक्षा के वषिय में मथिक](#)
- [प्रमुख सविलि सेवाओं का परचिय](#)
 - [आई.ए.एस.](#)
 - [आई.पी.एस.](#)
 - [आई.एफ.एस.](#)
- [तैयारी की रणनीति](#)
 - [प्रारंभिक परीक्षा](#)
 - [मुख्य परीक्षा](#)
- [इंटरव्यू](#)
- [उपयोगी पुस्तकें](#)
 - [सामान्य अध्ययन](#)
 - [वैकल्पिक वषिय](#)
- [FAQs](#)
- [परीक्षा वजिप्तति](#)

[दृष्टिविब स्टोर](#)

•

प्रश्न :

आपदा जोखमि में कमी के लयि सेंदाई फरेमवर्क, 2015-30 एक सामान्य मानक स्थापति करता है और खतरों की सभेद्यता को रोकने के लयि समावेशी एवं एकीकृत संस्थागत उपायों को अपनाने पर जोर देता है ।

25 Feb, 2019 सामान्य अध्ययन पेपर 3 आपदा प्रबंधन

उत्तर :

प्रश्न वचिछेद

प्रश्न में सेंदाई फरेमवर्क के वभिनिन पकर्षों की चर्चा करनी है ।

हल करने का दृष्टिकोण

सैंदाई प्रेमवर्क का परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ करें।

सैंदाई प्रेमवर्क के लक्ष्य बताइये।

वैश्विक लक्ष्यों की चर्चा करें एवं सैंदाई प्रेमवर्क इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे सफल है, बताइये।

नषिकर्ष।

जापान के सैंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिये तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कार्रवाई के लिये ह्यूगो रूपरेखा के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये 2015 के पश्चात् सैंदाई रूपरेखा को अपनाया गया। इसका कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य आपदा की व्यापकता के संदर्भ में प्रबंधन रणनीति अपनाने से है। यह प्रबंधन लघु या वृहद् स्तर पर नरितर या यदा-कदा होने वाली प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के खतरों से निपटने के लिये है।

सैंदाई रूपरेखा के लक्ष्य नमिनलखित हैं-

- वर्ष 2030 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष आपदा आर्थिक क्षति को कम करना।
- वर्ष 2030 तक लोगों को विभिन्न प्रकार के खतरों की पूर्व चेतावनी प्रणाली की उपलब्धता और आपदा जोखिम के प्रति जानकारी प्रदान करने वाले उपायों में पर्याप्त वृद्धि करना।
- वर्ष 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु रणनीतियाँ बनाने वाले देशों की संख्या में वृद्धि करना।
- वर्ष 2030 तक वैश्विक आपदा मृत्यु दर में पर्याप्त कमी लाना।
- 2030 तक राष्ट्रीय कार्ययोजनाओं को विकासशील राष्ट्रों में पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करवाना।
- वैश्विक स्तर पर 2030 तक आपदा प्रभावित लोगों की संख्या कम करना।
- लचीले विकास के माध्यम से वर्ष 2030 तक महत्त्वपूर्ण आधारभूत ढाँचे तथा बुनियादी सेवाओं में उत्पन्न होने वाले व्यवधानों में पर्याप्त कमी लाना।
- सैंदाई रूपरेखा UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction) के सहयोग की भी व्यवस्था करती है जिससे राष्ट्रीय प्रयासों को वैश्विक सहयोग प्राप्त हो सके।

नषिकर्षत: यह कहा जा सकता है कि सैंदाई रूपरेखा समावेशी और एकीकृत लक्ष्यों के निर्धारण के द्वारा वैश्विक स्तर पर आपदाओं के निराकरण हेतु महत्त्वपूर्ण प्रयास करती है।

संबंधित स्रोत: इंटरनेट, द हनिदू योजना और कुरुक्षेत्र।

मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

- [होम](#)
- [मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न](#)

filterHide Menu

```
$('#sendtoprogress').click(function(e){ var article=$('#article').val(); var title = $('#articletitle').val(); var url = "https://www.drishtiiias.com/hindi/mains-practice-question/question-1803/pnt"; $.ajax({ type: "POST", url: "https://www.drishtiiias.com/hindi/articles/progress", data: 'article='+article+'&type=2&articletitle='+title+'&url='+encodeURIComponent(url), success: function(data){ if(data=='success'){ if($('.progresslist').length) { $('.progresslist').prepend(''); } } else { $('.message').hide(); $('
```

- ['+title+'](#)

```
'.insertAfter( ".content .prog" ); } $('#articlemsg').html('आर्टिकल को आपके प्रोग्रेस सेक्शन में जोड़ दिया गया है | '); $('#fixbtn.progress').toggleClass('open'); }else if(data=='already'){ $('#articlemsg').html('यह आर्टिकल आपके प्रोग्रेस सेक्शन में पहले से ही मौजूद है | '); }else if(data=='login'){ $('#articlemsg').html('आर्टिकल को प्रोग्रेस सेक्शन में जोड़ने के लिए लॉगिन करें | '); }else{ $('#articlemsg').html('ओह! कुछ गलत हो गया है। कृपया पुनः प्रयास करें | '); } }, error: function(error,errortype,errorstatus){ alert(errortype); } }); } }); $('#sendtobookmark').click(function(e){ var article=$('#article').val(); var title = $('#articletitle').val(); var url = "https://www.drishtiiias.com/hindi/mains-practice-question/question-1803/pnt"; $.ajax({ type: "POST", url: "https://www.drishtiiias.com/hindi//articles/progress", data: 'article='+article+'&type=1&articletitle='+title+'&url='+encodeURIComponent(url), success: function(data){ if(data=='success'){ if($('.bookmarklist').length) { $('.bookmarklist').prepend(''); } } else { $('.message').hide(); $('
```

- ['+title+'](#)

```
'.insertAfter( ".content .bookm" ); } $('#articlemsg').html('यह आर्टिकल आपके बुकमार्क्स सेक्शन में जोड़ दिया गया है | '); $('#fixbtn.bookmark').toggleClass('open'); }else if(data=='already'){ $('#articlemsg').html('यह आर्टिकल आपके बुकमार्क्स सेक्शन में पहले से ही मौजूद है | '); }else if(data=='login'){ $('#sendtobookmark').addClass('popup'); //$('#articlemsg').html('Please login to send this article into progress. '); }else{ $('#articlemsg').html('ओह! कुछ गलत हो गया है। कृपया पुनः प्रयास करें | '); } }, error: function(error,errortype,errorstatus){ alert(errortype); } }); } });
```

न्यूज़लेटर सदस्यता

सब्सक्राइब करें

एसएमएस अलर्ट

सब्सक्राइब करें

हमारे बारे में

- [For 2nd/3rd/4th EMI - Pay Now](#)
- ['दृष्टि दि वजिन' फाउंडेशन का परिचय](#)

- [दृष्टि वेब स्टोर](#)
- [दृष्टि भीडिया](#)
- [प्रबंध नदिशक](#)
- [इंफ्रासट्रक्चर](#)
- [उत्कृष्ट ज्ञान प्रोग्राम](#)

हमसे जुड़ें

- [संपर्क करें](#)
- [आपकी प्रतिक्रिया](#)
- [करियर](#)

हमसे संपर्क करें

दृष्टि वज़िन फाउंडेशन

641, पहली मंजलि, डॉ. मुखर्जी नगर,
सग्नेचर व् यू अपार्टमेंट के सामने,
नई दिल्ली - 110009

दृष्टि वज़िन फाउंडेशन

सविलि लाइन्स, प्रयागराज (इलाहाबाद),
उत्तर प्रदेश - 211001,
फोन नंबर - 8448485518, 8750187501

- -
- -
- -
- -
- -
- -

[1800-121-6260](#) / [011-47532596](#)


```
function getCookie(name) { var match = document.cookie.match(RegExp("(?:^|;)\s*" + name + "=(.*)")); return match ? match[1] : null; } if(getCookie('isPopupDisplayed_recent')!=1) { $(document).ready(function(){ document.cookie = "isPopupDisplayed_recent=1" // $('#myModal_recent').css('display','block'); $('#img01').attr('src',$('#myImg').attr('src')); $('#img01').attr('style','cursor:pointer'); }); $('#img01').on('click',function(e){ window.location="https://www.drishtias.com/topic/cs-day"; }); $('#popclose').on('click',function(e){ $('#myModal_recent').css('display','none'); }); } // Added this - if user click on anywhere outside popup - modal/popup will be gone $('body').click(function(e) { $('#myModal_recent').hide(); });
```

Show Page

-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--

खोजें Close

```
$('#searchfrm').submit(function(e){ var search=$('#search').val(); location='https://www.drishtias.com/hindi/search/'+search; e.preventDefault(); }); $(document).ready(function(){ $('#comin-soon').colorbox({innerWidth: 1100, innerHeight: 530}); if(screen.width < 1100) { $('#comin-soon').colorbox({innerWidth: '100%', innerHeight: '100%'}); } } & N B S P ;
```



&NBSP;&NBSP;

&NBSP; &NBSP;

&NBSP; &NBSP;

&NBSP; &NBSP;

&NBSP; &NBSP;

&NBSP; &NBSP;

&NBSP; &NBSP;

[&NBSP;_&NBSP;](#)

[&NBSP;_&NBSP;](#)

```
// For desktop - DRAGGABLE $('float-plus').draggable(); $(".float-plus").css("position", "fixed"); $(".float-plus").click(function(){ show_social_float_icons(); }) var box = document.getElementById('float-plus'); $(".float-plus").mousedown(function(){ box.style.transition = "all 0s ease 0s"; }); $(".float-plus").mouseup(function(){ box.style.transition = "all 1s ease 0s"; var screen_width = screen.width; var screen_width = parseInt(screen_width, 10) var current_location = box.style.left; var current_location = parseInt(current_location, 10) var screen_middle = (screen_width/2); var xx = (screen_width*0.04); var x = (screen_width*0.009); if(current_location > screen_middle){ box.style.left = (screen_width-xx) + 'px'; } else { box.style.left = x + 'px'; } }); // For MOBILE TOUCH - DRAGGABLE var box = document.getElementById('float-plus'); box.addEventListener('touchstart', function(e) { // Nothing for now! }); box.addEventListener('touchmove', function(e) { box.style.transform = "translate(-50%, -50%)"; var touchLocation = e.targetTouches[0]; box.style.left = (touchLocation.pageX-window.scrollX) + 'px'; box.style.top = (touchLocation.pageY-window.scrollY) + 'px'; e.preventDefault(); }); box.addEventListener('touchend', function(e) { // Nothing for now! }); function remove_social_float_icons() { $(".float-fb").animate({ top: "-=8%", }, 500 ); setTimeout(function(){ $(".float-fb" ).hide("slow"); },500); $(".float-tw").animate({ top: "-=16%", }, 500 ); setTimeout(function(){ $(".float-tw" ).hide("slow"); },500); $(".float-rs").animate({ top: "-=24%", }, 500 ); setTimeout(function(){ $(".float-rs" ).hide("slow"); },500); $(".float-ig").animate({ top: "-=32%", }, 500 ); setTimeout(function(){ $(".float-ig" ).hide("slow"); },500); $(".float-pn").animate({ top: "-=40%", }, 500 ); setTimeout(function(){ $(".float-pn" ).hide("slow"); },500); $(".float-wp").animate({ top: "-=48%", }, 500 ); setTimeout(function(){ $(".float-wp" ).hide("slow"); },500); var width = (window.innerWidth > 0) ? window.innerWidth : screen.width; if(width 0) ? window.innerWidth : screen.width; if(width
```